



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 714) पटना, सोमवार, 1 सितम्बर 2014

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

1 सितम्बर 2014

एस0ओ0 361, दिनांक 1 सितम्बर 2014—बंगाल, आगरा और असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-XII, वर्ष 1887) की धारा 13 की उप-धारा (1) एवं 14 की उप-धारा (1) तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम-2, वर्ष 1974) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं का उपांतरण करते हुए बिहार राज्यपाल ने -

(i) मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज अनुमंडल में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है, जिसमें अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुंसिफ का न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय शामिल रहेंगे;

(ii) अनुमंडलीय न्यायालय का मुख्यालय उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा, में रहेगा। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसिफ एवं न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के उपर्युक्त न्यायालय, मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज अनुमंडल की पूर्ण स्थानीय राजस्व सीमा के भीतर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे;

(iii) अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसिफ एवं न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के उपर्युक्त न्यायालय, उदाकिशुनगंज में अपनी बैठक करेंगे;

(iv) यह अधिसूचना दिनांक 07 सितम्बर 2014 से प्रवृत्त होगी एवं अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा, न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा एवं मुंसिफ मधेपुरा के न्यायालय, उक्त तिथि से उदाकिशुनगंज अनुमंडल के राजस्व सीमा से संबद्ध मामलों में, अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेंगे;

(v) उदाकिशुनगंज अनुमंडल की स्थानीय सीमा से संबंधित सभी मामले जो अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी एवं मुंसिफ मधेपुरा के समक्ष लंबित हैं, क्रमशः अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी एवं मुंसिफ, उदाकिशुनगंज के न्यायालयों को अन्तरित हो जाएँगे।

(सं० ए०/एक्ट-4/90/6218/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

1 सितम्बर 2014

एस०ओ० 362, एस०ओ० 361, दिनांक 1 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० ए०/एक्ट-4/90/6218/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

The 1st September 2014

S.O. 361, dated 1st September 2014—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section-13 and sub-section (1) of Section 14 of The Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act XII of 1887) and Sub-Section (1) of Section 11 of The Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the subject, the Governor of Bihar is, hereby pleased to -

(i) establish Sub-divisional Civil Court, Udakishunganj Subdivision in the District of Madhepura including the Court of Sub Divisional Judicial Magistrate, Court of Munsif and Courts of Judicial Magistrate, First Class, Udakishunganj;

(ii) the headquarters of the Sub-divisional Court will be at Udakishunganj District Madhepura. The aforesaid Courts of Sub Divisional Judicial Magistrate, Munsif and Judicial Magistrates, First Class, shall exercise the Jurisdiction over the entire local limits of the Revenue Sub division of Udakishunganj in the District of Madhepura;

(iii) the aforesaid Courts of Sub Divisional Judicial Magistrate, Munsif and Judicial Magistrate, First Class, of Udakishunganj shall hold its sitting at Udakishunganj;

(iv) this notification shall come into force with effect from 7th September, 2014 and the Court of Sub Divisional Judicial Magistrate, Madhepura, Judicial Magistrate, Madhepura and Munsif, Madhepura will cease to exercise Jurisdiction over the matters relating to the Jurisdiction of local limits of Revenue Sub-division, Udakishunganj.

(v) All the cases pending before the Sub Divisional Judicial Magistrate, Judicial Magistrate, Munsif, Madhepura to the Jurisdiction of local limits of Udakishunganj Sub-division shall stand transferred to the Court of Sub Divisional Judicial Magistrate, Judicial Magistrate, Munsif, Udakishunganj respectively.

(No. A/Act-4/90/6218/J)

By order of the Governor of Bihar,

AKHILESH KUMAR JAIN,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 714-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>